

@shahjahanpurpol

प्रेस नोट सराहनीय कार्य दिनांक -04.09.21

थाना रोजा पुलिस द्वारा शातिर किस्म का चोर/लुटेरा किया गिरफ्तार

10 अदद मंहगे मल्टीमीडिया मोबाईल फोन बरामद

श्री एस.आनन्द पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के अन्तर्गत श्री संजय कुमार पुलिस अधीक्षक नगर व श्री अरविन्द कुमार क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण में चोरी तथा लूट की घटनाओं पर रोकथाम के क्रम में रोजा पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि 01 व्यक्ति आई.टी.आई मोड हाइवे पर चोरी के मोबाईल बेचने के लिए आया है। थाना प्रभारी जयशंकर सिंह, व 030नि0 सुदीश सिंह सिरौही, उ.नि. प्रदीप कुमार, हे0का0 143 विजय सिंह व का0 1402 मोहसिन द्वारा मुखबिर की सूचना व निशानदेही पर आई.टी.आई मोड से अभियुक्त शोभित सिंह पुत्र मूला सिंह निवासी ग्राम हिंगरी थाना आल्हागंज जिला शाहजहाँपुर को गिरफ्तार किया गया। जिसके पास से 10 अदद मंहगे एंड्रोएड मोबाइल तथा एक अदद नाजायज चाकू बरामद हुआ। अभियुक्त के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर न्यायालय रवाना किया जा रहा है।

गिरफ्तारी पृच्छाछ – पृच्छाछ से आरोपी ने बताया वह नशे व आर्याशी का आदी है। जिसके चलते खर्चे पूरे करने के लिये चोरी /छिनैती की घटनाएं करता है। इसके द्वारा जनपद शाहजहाँपुर में अलग अलग जगहों में चोरी/छिनैती की घटनाएं स्वीकार की गयी हैं। बरामद मोबाईल की IMEI रन कराकर उनके मालिकों के बारे में पता लगाकर विधिक कार्यवाही की जायेगी। इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी हेतु सर्विलांस शाखा को बरामद मोबाईल फोन की IMEI भेजकर सर्विलांस पर लगवाया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि अभियुक्त जुआंरी भी है और इसका दोस्त रोहित कंजड़ निवासी थाना क्षेत्र जलालाबाद शातिर किस्म का लुटेरा है। जो कि पूर्व में थाना जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुर से लूट के मामले में जेल जा चुका है। जिसकी तलाश की जा रही है। आरोपी शोभित सिंह ने अपनी मोटरसाईकिल रोहित कंजड़ को घटना करने के लिये दे रखी थी। रोहित कंजड़ जो भी अपराध करता था उसका 1/3 हिस्सा शोभित को देता था। अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

***गिरफ्तार अभियुक्त* :**

1. शोभित सिंह पुत्र मूला सिंह निवासी ग्राम हिंगरी थाना अल्हागंज जनपद शाहजहाँपुर।

***बरामदगी* :**

1. 10 अदद मंहगे एंड्रोएड मोबाइल फोन
2. एक अदद नाजायाज चाकू

***गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम* :-**

1. थाना प्रभारी जयशंकर सिंह
2. व 030नि0 सुदीश सिंह सिरौही
3. उ 030नि0 प्रदीप कुमार
4. हे 0का 0 143 विजय प्रताप सिंह
5. का 0 1402 मोहसिन उस्मानी

